

कौन हैं सेंटनिली?

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के नॉर्थ सेंटनिल नामक एक द्वीप पर एक अमेरिकी व्यक्तिकी हत्या का मामला सामने आया। उल्लेखनीय है कियह हत्या उस क्षेत्त्र में हुई है जहाँ सेंटनिली जनजाति निवास करती है।

नार्थ सेंटनिल द्वीप (North Sentinel Island) //

- नार्थ सेंटनिल द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थिति अंडमान द्वीप समूह का एक द्वीप है।
- यह द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण अंडमान प्रशासनिक ज़िले के अंतर्गत आता है।

सेंटनिली जनजाति

- ये लोग अंडमान के नार्थ सेंटनिल द्वीप पर रहनी वाली नगिरटो (अश्वेत तथा छोटे कद वाले) समुदाय के हैं इन्होंने कभी भी आकस्मिक हमले का सामना नहीं किया है और बाहरी लोगों से ये शत्रुवत व्यवहार करते हैं।
- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, ये लोग शारीरिक बनावट तथा भाषाई समानताओं के आधार पर जारवा समुदाय (Jarawas) से जुड़े हुए हैं।
- भारत के मानव वज्जान सर्वेक्षण ने कार्बन डेटिंग के आधार पर यह पुष्टिकी है कि इन द्वीपों पर सेंटनिली जनजातिके लोगों की उपस्थिति 2,000 साल पहले से है।
- जीनोम अध्ययन के अनुसार, संभव है कियह जनजाति 30,000 साल पहले भी अंडमान द्वीप पर रहती हो।
- आनुवंशिक रूप से इस जनजाति समूह द्वारा बोली जाने वाला भाषा सेंटनिलीज़ है। इस भाषा को समझना भी बहुत मुश्कलि है क्योंकि द्वीप के आस-पास के क्षेत्त्रों में ऐसी भाषा बोले जाने के कोई साक्ष्य नहीं मिलते।
- सेंटनिली जनजातिको अंडमान की 5 सबसे असाखजनिक जनजातियों में सबसे असाखजनिक माना जाता है। अन्य चार जनजातियाँ हैं- ग्रेट अंडमानीज़ (Great Andamanese), ऑज (the Onge), शोम्पेन (the Shompen) और जारवा (the Jarawas)।
- यह उन जनजातियों में से है जो 2004 के सुनामी से बाहरी दुनिया की मदद के बिना सुरक्षित बचने में सफल रही।
- माना जाता है कि सेंटनिली दुनिया की एकमात्र जनजाति है जो नवपाषाण काल से पूर्व की जनजाति है। इसका तात्पर्य यह है कि उनकी संस्कृति ऐसी है जो पाषाण युग की मध्य अवधि में मौजूद थी। इन लोगों द्वारा धातुओं का उपयोग किये जाने के बारे में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है लेकिन कई शोधकर्त्ताओं का मानना है किये लोग हथियारों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिये धातुओं का उपयोग नहीं करते हैं।

संरक्षति जनजाति

- भारत सरकार ने जनजातियों के कब्जे वाले पारंपरिक क्षेत्रों को संरक्षित घोषित करने के लिये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (आदिवासी जनजातियों का संरक्षण) विनियमन, 1956 जारी किया और इस क्षेत्र में प्राधिकरण के अलावा अन्य सभी व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया।
- जनजात सदस्यों की फोटो लेना या फलिमांकन का कार्य करना भी एक अपराध है।
- लेकिन हाल ही में कुछ द्वीपों के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश संबंधी नियमों में छूट दी गई थी।

व्यवहार

- सेंटनेली लोगों का बाहरी व्यक्तियों के प्रति व्यवहार अत्यधिक शत्रुतापूर्ण रहा है। लेकिन 1991 में उन्होंने भारतीय मानव विज्ञानवर्दी और प्रशासकों की एक टीम से कुछ नारियल स्वीकार किये थे।
- कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि सेंटनेली लोगों को औपनिवेशिक काल से ही अकेला छोड़ दिया गया था क्योंकि अन्य जनजातियों जैसे कि ऑज, जारवा और ग्रेट अंडमानीज़ (Great Andamanese) के विपरीत इस जनजाति ने जसि भूमि पर कब्जा किया है, उसके प्रति वाणिज्यिक आकर्षण नहीं है।

जनजातिके लोगों की संख्या

- 1901 से 1921 तक उनकी संख्या अनुमानतः 117 थी।
- 1931 में यह संख्या घटकर 50 हो गई और 1961 की जनगणना के लिये भी यही संख्या इस्तेमाल की गई थी।
- 1991 में इनकी संख्या 23 थी और 2001 की जनगणना के अनुसार, इनकी संख्या 39 (21 पुरुष 18 महिलाएँ) थी।
- 2011 की जनगणना के लिये जनगणना अधिकारी केवल 15 सेंटनेली लोगों को ढूँढ सके जिनमें 12 पुरुष और तीन महिलाएँ थीं। हालाँकि, उनकी संख्या 40 से 400 के बीच भी हो सकती है।

स्रोत : द हट्टि एवं इंडिया टुडे

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/who-are-the-sentinelese>

